

# Deu

## Chapter 13

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

אִי אֵת אֱלֹהֵי וַנִּתֵּן חֻלֹּם חֻלֵּם אִי נָבִיא בְּקִרְבֹּה יִקוּם כִּי  
या चिह्न को-तुझ और-देगा स्वप्न स्वप्न-देखने-वाला या नबी में-बीच-तेरे उठेगा यदि

[H0226](#)

[H0413](#)

[H5414](#)

[H2472](#)

[H5030](#)

[H7130](#)

מוֹפֵת:

चमत्कार

[H4159](#)

“कोई नबी या स्वप्न फल ज्ञाता तुम्हारे पास आ सकता है। वह यह कह सकता है कि वह कोई दैवी चिह्न या आश्चर्यकर्म दिखाएगा।

אֲחֵרִים אֱלֹהִים אַחֲרַי גִּלְגָּל לְאֹמַר אֱלֵיךָ דַּבֵּר אֲשֶׁר-וְהַמּוֹפֵת הָאֵת וַבֹּא  
अन्य एलोहीम-के पीछे चलें कहते-हुए से-तुझ कहा जिसका और-चमत्कार चिह्न और-आएगा

[H0312](#)

[H0430](#)

[H3212](#)

[H0559](#)

[H0413](#)

[H1696](#)

[H4159](#)

[H0226](#)

[H0935](#)

וְנִעַבְדֶם:

और-सेवा-करें

[H5647](#)

יִדְעֵתֶם

जानते-तू

[H3045](#)

לֹא

नहीं

[H3808](#)

אֲשֶׁר

जिन्हें

वह दैवी चिह्न या आश्चर्यकर्म, जिसके बारे उसने तुम्हें बताया है, वह सही हो सकता है। तब वह तुमसे कह सकता है कि तुम उन देवताओं का अनुसरण करो (जिन्हें तुम नहीं जानते।) वह तुमसे कह सकता है, 'आओ हम उन देवताओं की सेवा करें!'

כִּי הָהוּא הַחֻלֹּם חֻלֵּם אֶל-אִי הָהוּא הַנְּבִיא דַּבְרֵי אֶל-תִּשְׁמָע לֹא  
क्योंकि उस स्वप्न-के स्वप्न-देखने-वाले की या उस नबी-के वचनों की सुनी नहीं

[H1931](#)

[H2472](#)

[H0413](#)

[H1931](#)

[H5030](#)

[H1697](#)

[H0413](#)

[H8085](#)

[H3808](#)

אֱלֹהֵיכֶם יְהוָה אֶת-אֱהָבִים הַיְשָׁבֵם לְרַעַת אֶתְכֶם אֱלֹהֵיכֶם יְהוָה מְנַסֶּה  
एलोहीम-तुम्हारे यहोवा से प्रेम-करते-हो क्या-तुम जानने को-तुम एलोहीम-तुम्हारा यहोवा परीक्षा-कर-रहा-है

[H0430](#)

[H3068](#)

[H0853](#)

[H0157](#)

[H3426](#)

[H3045](#)

[H0853](#)

[H0430](#)

[H3068](#)

[H5254](#)

נַפְשֵׁיכֶם:

प्राण-तुम्हारे

[H5315](#)

וּבְכָל-

और-से-सब

[H3605](#)

לְבַבְכֶם

मन-अपने

[H3824](#)

בְּכָל-

से-सब

[H3605](#)

उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वह यह जानना चाहता है कि तुम पूरे हृदय और आत्मा से उस से प्रेम करते हो अथवा नहीं।

תִּשְׁמְרוּ מַצְוֹתַי וְאֶת-תִּירָאוֹ וְאֶת-חֻלְכֹו אֱלֹהֵיכֶם יְהוָה אַחֲרַי  
मानोगे-तुम आज्ञाओं-उसकी और-को डरोगे-तुम और-से-उस चलोगे-तुम एलोहीम-तुम्हारे यहोवा पीछे

[H8104](#)

[H4687](#)

[H0853](#)

[H3372](#)

[H0853](#)

[H3212](#)

[H0430](#)

[H3068](#)

תִּדְבְּקוּן:

लिपटे-रहोगे-तुम

[H1692](#)

וּב-

और-से-उस

תַּעֲבֹדוּ

सेवा-करोगे-तुम

[H5647](#)

וְאֶת-

और-को-उस

[H0853](#)

תִּשְׁמְעוּ

सुनोगे-तुम

[H8085](#)

וּבְקִלּוֹ

और-आवाज-उसकी

तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। यहोवा के आदेशों का पालन करो और वह करो जो वह कहता है। यहोवा की सेवा करो और उसे कभी न छोड़ो!



הָעָם	כָּל-	יָד	לְחַמִּיתוּ	בְּרֵאשִׁוֹנָה	בּוֹ	תִּהְיֶה-	יָדְךָ	מִתְרַגְּלוֹ	הָרֵג	כִּי	9
लोगों-का	सब	और-हाथ	मारने-उसे	पहले	पर-उस	होगा	हाथ-तेरा	मारोगे-उसे-तुम	मारना	क्योंकि	
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H7223</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H2026</a>	<a href="#">H2026</a>		

בְּאַחֲרָיֶיהָ:  
अंत-में  
[H0314](#)

तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। तुम्हें उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए! पत्थर उठाने वालों में तुम्हें पहला होना चाहिए और उसे मारना चाहिए। तब सभी लोगों को उसे मार देने के लिए उस पर पत्थर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से दूर हटाने का प्रयास किया। यहोवा केवल एक है जो तुम्हें मिस्र से लाया, जहाँ तुम दास थे।

אֱלֹהֵיךָ	יְהוָה	מֵעַל	לְהַדְרִיחֶךָ	בְּקֶשׁ	כִּי	וּמַת	בְּאַבְנִים	וּסְקִלְתוּ	10
एलोहीम-तेरे	यहोवा	से-पास	भटकाने-तुझे	चाहा	क्योंकि	और-मरेगा	से-पत्थरों	और-पत्थराओ-उसे-तुम	
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H5080</a>	<a href="#">H1245</a>		<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H5619</a>	

הַמּוֹצִיאָהּ  
निकालने-वाले-तुझे  
מֵאֶרֶץ  
से-देश  
מִצְרַיִם  
मिस्र-के  
מִבֵּית  
से-घर  
עֲבָדִים:  
दासत्व-के  
[H5650](#)

तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। तुम्हें उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए! पत्थर उठाने वालों में तुम्हें पहला होना चाहिए और उसे मारना चाहिए। तब सभी लोगों को उसे मार देने के लिए उस पर पत्थर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से दूर हटाने का प्रयास किया। यहोवा केवल एक है जो तुम्हें मिस्र से लाया, जहाँ तुम दास थे।

בְּקֶרְבְּךָ:	הָיָה	הָרַע	כְּדָבָר	לַעֲשׂוֹת	יֹסְפוּ	וְלֹא-	וַיִּרְאוּ	יִשְׁמְעוּ	יִשְׂרָאֵל	וְכָל-	11
में-बीच-तेरे	यह	बुरा	जैसा-काम	करने	करेंगे-फिर	और-नहीं	और-डरेगा	सुनेगा	इसाएल	और-सब	
<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H2088</a>		<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H3254</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3605</a>	

ו  
—

तब इसाएल के सभी लोग सुनेंगे और भयभीत होंगे और वे तुम्हारे बीच और अधिक इस प्रकार के बुरे काम नहीं करेंगे।

שָׁם	לְשֹׁבֹת	לָךְ	נָתַן	אֱלֹהֵיךָ	יְהוָה	אֲשֶׁר	עָרִיךָ	בְּאַחַת	תִּשְׁמָע	כִּי-	12
वहाँ	रहने	को-तुझ	दे-रहा-है	एलोहीम-तेरा	यहोवा	जिसे	नगरों-तेरे-से	में-एक	सुनेंगे-तू	यदि	
<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H3427</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H8085</a>		

לְאָמַר:  
कहते-हुए  
[H0559](#)

“यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको रहने के लिए नगर दिये हैं। कभी—कभी तुम नगरों में से किसी के बारे में बुरी खबर सुन सकते हो। तुम सुन करते हो की

לְאָמַר	עִירָם	יֹשְׁבֵי	אֶת-	וַיִּדְרֹחוּ	מִקֶּרְבְּךָ	בְּלִיעַל	בְּנֵי-	אֲנָשִׁים	יִצְאוּ	13
कहते-हुए	नगर-अपने-के	बसने-वालों	को	और-भटकाए	से-बीच-तेरे	बेलियाल-के	पुत्र	आदमी	निकले	
<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5080</a>	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H1100</a>		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3318</a>	

יְדַעְתָּם:  
जानते-तुम  
לֹא-  
नहीं  
אֲשֶׁר  
जिन्हें  
אֲחֵרִים  
अन्य  
אֱלֹהִים  
एलोहीम-की  
וְנַעַבְדָּהּ  
और-सेवा-करें  
יִלְכְּהָ  
चलें  
[H3045](#)

तुम्हारे अपने राष्ट्रों में ही कुछ बुरे लोग अपने नगर के लोगों को बुरी बातों के लिए तैयार कर रहे हैं। वे अपने नगर के लोगों से कह सकते हैं, ‘आओ चलें, दूसरे देवताओं की सेवा करें।’ (ये ऐसे देवता होंगे जिन्हें तुमने पहले नहीं जाना होगा।)

נְשֵׂאתָ की-गई	הַדָּבָר बात	נִכּוֹן निश्चित	אַמֶּת सच	וְהִנֵּה और-देखो	הַיָּטִב अच्छी-तरह	וְשָׂאֶתְךָ और-पूछोगे-तू	וְהִקְרַתְּ और-जाँचोगे-तू	וְדַרְשֶׁתָּ और-खोजोगे-तू	14
	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H3190</a>	<a href="#">H7592</a>	<a href="#">H2713</a>	<a href="#">H1875</a>	

בְּקִרְבֵּךָ में-बीच-तेरे	הִזְאֵת यह	הַתּוֹעֵבָה घृणा
<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H8441</a>

यदि तुम ऐसी सूचना सुनो तो तुम्हें जहाँ तक हो सके यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह सत्य है अथवा नहीं। यदि तुम्हें मालूम होता है कि यह सत्य है, यदि प्रमाणित कर सको कि सचमुच ऐसी भयंकर बात हुई,

אֲתָהּ को-उस	הַחֶרֶם समर्पित-करो	חָרֵב तलवार-की	לְפִי- से-धार	(הַהִיא) उस	[הַהוּא] उस	הָעִיר नगर-के	וְשָׁבִי बसने-वालों	אֶת- को	תִּכְהָ मारोगे-तुम	הַכּוּהָ मारना	15
<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H5221</a>	

וְאֶת- और-को	כָּל- सब	אֲשֶׁר- जो	בָּהּ में-उस	וְאֶת- और-को	בְּהִמְתָּהּ पशुओं-उसके	לְפִי- से-धार	חָרֵב- तलवार-की
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H2719</a>

तब तुम्हें उस नगर के लोगों को अवश्य दण्ड देना चाहिए वे सभी जान से मार डाले जाने चाहिए और उनके सभी मवेशियों को भी मार डालो। तुम्हें उस नगर के लोगों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए।

אֶת- को	בְּאֵשׁ में-आग	וְשָׂרְפֶתָּ और-जलाओगे-तू	רַחֲבֶתָּ चौक-उसके	תּוֹךְ बीच	אֶל- पास	תִּקְבְּצִי इकट्ठा-करोगे-तू	שְׁלִלָהּ लूट-उसकी	כָּל- सब	וְאֶת- और-को	16
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H8313</a>	<a href="#">H7339</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6908</a>	<a href="#">H7998</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	

לֹא नहीं	עוֹלָם सदा	תֵּל टीला	וְהִיָּתָה और-होगी	אֶלְהִיָּהּ एलोहीम-तेरे	לִיהוָה को-यहोवा	כְּלִיל पूरी-तरह	שְׁלִלָהּ लूट-उसकी	כָּל- सब	וְאֶת- और-को	הָעִיר नगर
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H8510</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3632</a>	<a href="#">H7998</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	

עוֹר- फिर	תִּבְנֶה बनाई-जाएगी
<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H1129</a>

तब तुम्हें सभी किमती चीजों को इकट्ठा करना चाहिए और उसे नगर के बीच ले जाना चाहिए और सब चीजों को नगर के साथ जला देना चाहिए। यह तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए होमबलि होगी। नगर को सदा के लिए राख का ढेर हो जाना चाहिए यह दुबारा नहीं बनाया जाना चाहिए।

אִפֹּי क्रोध-अपने-के	מִחֲרוֹן से-भड़कने	יְהוָה यहोवा	יָשׁוּב लौटेगा	לְמַעַן ताकि	הַחֶרֶם समर्पण	מִן- से	מְאוּמָה कुछ	בְּיָדְךָ में-हाथ-तेरे	יִדְבֹק लिपटेगी	וְלֹא- और-नहीं	17
<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H4616</a>			<a href="#">H3972</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H1692</a>	<a href="#">H3808</a>	

לְאַבְתָּיִךָ को-पूर्वजों-तेरे	נִשְׁבַּע शपथ-खाई	כְּאִשֶׁר जैसा	וְהִרְבֵּתָ और-बढ़ाएगा-तुझे	וְרַחֲמֶיךָ और-दया-करेगा-तुझे	רַחֲמִים दया	לְךָ को-तुझे	וְנָתַתְּ और-देगा
<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H7650</a>			<a href="#">H7355</a>			<a href="#">H5414</a>

उस नगर की हर एक चीज़ परमेश्वर को, नष्ट करने के लिए दी जानी चाहिए। इसलिए तुम्हें कोई चीज अपने लिए नहीं रखनी चाहिए। यदि तुम इस आदेश का पालन करते हो तो यहोवा तुम पर उतना अधिक क्रोधित होने से अपने को रोक लेगा। यहोवा तुम पर दया करेगा और तरस खायेगा। वह तुम्हारे राष्ट्र को वैसा बड़ा बनाएगा जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों को वचन दिया था।

אֲנֹכִי मैं	אֲשֶׁר जो	מִצְוֹתָיו आज्ञाओं-उसकी	כָּל- सब	אֶת- को	לְשֹׁמְרֵי मानने	אֶלְהִיָּהּ एलोहीम-तेरे	יְהוָה यहोवा	בְּקוֹלִי आवाज-की	תִּשְׁמַע सुनोगे-तू	כִּי जब	18
<a href="#">H0595</a>		<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H8085</a>		

וְ	אֶלְהִיָּהּ एलोहीम-तेरे-की	יְהוָה यहोवा	בְּעֵינָיו में-आँखों	הִנֵּי सही	לַעֲשׂוֹת करने	הַיּוֹם आज	מִצְוֹתָיו आज्ञा-दे-रहा-तुझे
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H3477</a>		<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H6680</a>

यह तब होगा जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर की बात सुनोगे अर्थात् यदि तुम उन आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। तुम्हें वही करना चाहिए जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उचित बताता है।